



**FIROZABAD POLICE**

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



## प्रेस नोट – थाना शिकोहाबाद

### वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान 20 हजार रुपये के ईनामिया बदमाश को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन चक्रव्यूह के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.06.21 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0सं0 213/21 धारा 395/412 भादवि के 20000/- रुपये के वाँछित लुटेरे आकाश पुत्र राणा प्रसाद निवासी नगला किशी थाना घिरोर जनपद मैनपुरी को मैनपुरी चौराहा से सिरसागंज की तरफ सर्विस रोड पर खोखा के पास से गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर मय 1 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित बरामद हुआ है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 356/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.04.2021 को अपने साथियों के साथ मिलकर मु0अ0सं0 213/21 के वादी श्री रणवीर सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह नि0 अस्तबल रोड मन्दिर संगम बिहार नई दिल्ली को अटिका गाडी में बैठाकर 6000 रुपये केश, चैन, अंगूठी व मोबाईल लूट लिया था । उक्त मुकदमें में यह अभियुक्त फरार चल रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा 20 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- आकाश पुत्र राणा प्रसाद निवासी नगला किशी थाना घिरोर जनपद मैनपुरी ।

### बरामदगी का विवरण:-

1- एक अदद तमंचा देशी 12 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

1. मु0अ0सं0 213/21 धारा 395/412 भादवि थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 356/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।
3. मु0अ0सं0 190/21 धारा 395/412 भादवि थाना टूण्डला फिरोजाबाद ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक प्रमोद कुमार मलिक थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
2. उ०नि० मो०खालिद थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
3. उ०नि० अंकित मलिक थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
4. है०का० 681 हरवेन्द्र सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
5. का० 673 सत्यपाल सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
6. का० 920 संदीप कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।